



## प्रेस नोट

### थाना हंसवर पुलिस टीम द्वारा दो वांछित अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 08.06.2021

दिनांक 18.12.20 को श्री त्रिभुवन पुत्र मनोबध नि० ग्राम औझीपुर थाना हंसवर जनपद अम्बेडकर नगर यूनियन बैंक कटोखर से अपनी पत्नी के साथ 50 हजार रुपए निकाल कर, गिनकर अपने झोले में रखा था। जब उनकी पत्नी बैंक में पुनः अपना बैलेन्स चेक कराने हेतु अन्दर गयी थी और त्रिभुवन उपरोक्त बैंक गेट पर झोला लेकर खड़े थे तभी इन छः अपराधियों द्वारा उनका पैसों से भरा बैग ब्लेड से काट कर चोर पैसे लेकर भागने में सफल हुए थे। बैंक के CCTV में घटना रिकार्ड हुई थी। जिसके सम्बन्ध में त्रिभुवन उपरोक्त द्वारा थाना हंसवर पर मु०अ०सं० 221/2020 धारा 379 IPC अज्ञात पंजीकृत कराया गया था। CCTV के आधार पर छः अभियुक्तों की पहचान की गयी थी। जिसमें अभियुक्त राजा पुत्र संजय वांछित चल रहा था। चार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही कर जेल भेजा गया था। अभियुक्त लल्लू पुत्र महेन्द्र लोना नि० शहापुर फिरोजपुर जनपद अ० नगर गैंगस्टर में वांछित 25000/- इनामियां अभियुक्त था। जिन्हें दिनांक 08.06.2021 को चेकिंग के दौरान हंसवर पुलिस द्वारा रांगेय राघव के पास से अभियुक्त राजा पुत्र संजय नि० ग्राम शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर को मु०आ० 38/21 धारा 3(1) यूपी गैंगस्टर एक्ट तथा लल्लू पुत्र महेन्द्र लोना नि० ग्राम शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर को उसके घर से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की गयी। अभियुक्त लल्लू उपरोक्त के ऊपर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अभियुक्त राजा उपरोक्त के पास से चोरी का 1 हजार रुपया बरामद हुआ है।

#### नाम पता अभियुक्तः

1. लल्लू पुत्र महेन्द्र लोना नि० ग्राम शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अ०नगर
2. राजा पुत्र संजय नि० ग्राम शाहपुर फिरोजपुर थाना जलालपुर जनपद अम्बेडकरनगर

#### बरामदगी

एक हजार रुपया नगद चोरी का अभियुक्त राजा के पास से।

#### अपराधिक इतिहास अभियुक्त- लल्लू पुत्र महेन्द्र लोना

1. मु०अ०सं० 79/18 धारा 380/411 IPC थाना सरायमीर आजमगढ़
2. मु०अ०सं० 221/20 धारा 379/411 IPC थाना हंसवर अम्बेडकरनगर
3. मु०अ०सं० 224/20 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हंसवर अम्बेडकरनगर
4. मु०अ०सं० 362/20 धारा 379/411 IPC थाना जलालपुर अम्बेडकरनगर
5. मु०अ०सं० 361/20 धारा 419/420/379/411 भादवि थाना टाण्डा जनपद अम्बेडकरनगर
6. मु०अ०सं० 38/21 धारा 3(1) यूपी० गैंगस्टर एक्ट

#### अपराधिक इतिहास अभियुक्त- राजा पुत्र संजय

1. मु०अ०सं० 221/20 धारा 379/411 IPC थाना हंसवर अम्बेडकरनगर

2. मु0अ0सं0 299/20 धारा 380/411 भादवि थाना आलापुर जनपद अ0नगर

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:**

1. एस0ओ0 प्रदीप सिंह, थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।
2. उ0नि0 श्री सुरेश कुमार, थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।
3. हे0का0 अनिल कुमार सरोज, थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।
4. हे0का0 विनोद मिश्रा, थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।
5. का0 पवन राय थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।
6. का0 सुधीर सिंह, थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।
7. का0 शोएब अख्तर, थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।
8. का0 मुलायम सिंह यादव, थाना हंसवर जनपद अम्बेडकरनगर।

ABN POLICE